



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 1982/माघ 30, 1903
No. 4] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1982/MAGHA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1982

आ. अ. 4(अ) —भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 12 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है और निर्देश दिया है कि निर्वाचन आयोग के अभिलेखों में “सुनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट” का नाम “नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी” के रूप में बदल दिया जाए और यह कि नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को आरक्षित प्रतीक “सर्गा” जारी रखने की अनुमति दे दी जाए ;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(2) तारीख

28 सितम्बर, 1979 में का. आ. 557(अ) के रूप में प्रकाशित और समय समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 56/79 में निम्नीलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 2 में, “नागालैण्ड” के सामने, उस सारणी के स्तम्भ 2, में वर्णित “2. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट” आंकड़ा और शब्दों के स्थान पर, “2. नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी” आंकड़ा और शब्द रखे जाएंगे।

उक्त वर्णित संशोधन तारीख 12 फरवरी, 1982 से प्रभाविता समझा जाएगा।

[सं. 56/79-28]

आदेश से,

आर. पी. भल्ला, सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1982

O.N. 4(E). Whereas by its order dated the 12th February, 1982, the Election Commission of India has held and directed that the name of the “United Democratic Front” be changed to “Naga National Democratic Party” in the records of the Commission and that the Naga National Democratic Party be allowed to retain the reserved symbol ‘Cock’;

Now, therefore in pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment to its notification No. 56/79, dated the 28th September, 1979, published as S.O. 557(E) in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 28th September, 1979, as amended from time to time, namely :—

In TABLE 2 appended to the said notification, against ‘Nagaland’ for the figure and words “2. United Democratic Front” appearing in column 2 of the Table, the Figure and words “2. Naga National Democratic Party” shall be substituted.

The above-mentioned amendment shall be deemed to have taken effect from 12th February, 1982.

[No. 56/79-XXVIII]

By order,

R. P. BHALLA, Secy.

to the Election Commission of India